



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63]
No. 63]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 1978/फाल्गुन 5, 1899
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 1978/PHALGUNA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(खाद्य विभाग)

(Department of Food)

अधिसूचनाएं

NOTIFICATIONS

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1978

New Delhi, the 24th February, 1978

सां० का० नि० 84 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (इ) के साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ए० जे० एस० सोधी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) को श्री ए० जे० एस० कोहली, जिन्होंने पद त्याग दिया है, के स्थान पर 23 जुलाई, 1978 तक की अवधि तक भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय में (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां० का० नि० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :

“(9) श्री ए० जे० एस० सोधी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली।”

[फा० सं० 4-1/73/एफ० सी० I (खंड II)]

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1) of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and rule 4 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Shri A. J. S. Sodhi, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation, (Department of Agriculture) as a director on the Board of Directors of the Food Corporation of India vice Shri P. S. Kohli, resigned, for a period upto 23rd July, 1978, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Food and Agriculture, (Department of Food), No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely :—

In the said notification, for the entry (9), the following entry shall be substituted, namely :—

“(9) Shri A. J. S. Sodhi, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation, (Department of Agriculture), New Delhi.”

[File No. 4-1/73/FC-I (Vol. II)]

सां कां नि० 85 (ख) :—केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बी० एस० राघवन, अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग), नई दिल्ली, को श्री ए० के० मजुमदार के स्थान पर भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), की अधिसूचना सख्या सांकांनि० 37 तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) श्री बी० एस० राघवन, अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग), नई दिल्ली।”

[सं 4-1/73-एफ०सी०-I (खण्ड-II)]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri B. S. Raghavan, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), New Delhi, as a director on the Board of Directors of the Food Corporation of India vice Shri A. K. Majumdar and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely :—

In the said notification, for entry (2), the following entry shall be substituted, namely :—

“(2) Shri B. S. Raghavan, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), New Delhi.”

[File No. 4-1/73-FCI(Vol. II)]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.